

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ई सी आई/पी एन/43/2011

तारीख 19 जुलाई, 2011

प्रेस नोट

विषय : - भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई आई आई डी ई एम) के लिए प्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। बूथ लेवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे 40 से अधिक मास्टर प्रशिक्षकों के बारे में

भारत निर्वाचन आयोग के भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई आई आई डी ई एम) ने देश के निर्वाचन अधिकारियों के लिए अपना प्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आज शुरू किया। तारीख 19-21 जुलाई 2011 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे राज्यों के 42 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किए गए जहां वर्ष 2012 और 2013 में विधान सभा निर्वाचन नियत हैं अर्थात् गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये मास्टर प्रशिक्षक अपने राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ. एस. वाई. कूरैशी ने आज प्रशिक्षकों को संबोधित किया उन्होंने प्रशिक्षकों से कहा कि वे बूथ लेवल अधिकारियों को त्रुटि रहित नामावली तैयार करने और अधिक से अधिक नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करें। तीन दिवसों में होने वाले 11 सत्रों में प्रशिक्षण, भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके बाद, सभी शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने तथा उनके ज्ञान और कौशलों को उन्नत किए जाने की योजना है। उपर्युक्त सात मतदान वाले राज्यों में तारीख 29 सितम्बर, 2011 से तथा शेष राज्यों में 1 अक्टूबर, 2011 से निर्वाचक नामावलियों का अगला संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होने वाला है। पुनरीक्षण संबंधी क्रियाकलाप तारीख 25 जनवरी, 2012 को आयोजित होने वाले अगले राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पूर्व पूरा किया जाएगा। पूरे देश में बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण तारीख 30 सितम्बर, 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और इससे इस पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों की बेहतर सहभागिता के माध्यम से गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर और व्यापक त्रुटि रहित नामावलियां तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(यशवीर सिंह)
निदेशक